

B.A. Part-II (Semester-IV) Examination
(Optional Subject)
ECONOMICS
(Banking)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

Note :—(1) All questions carry equal marks.(2) **ALL** questions are compulsory.

1. Explain the definition of Bank and explain the types of Bank. 16

OR

Explain the functions of Commercial Bank. 16

2. Choose the correct option :

- (1) India's Central Bank is : 2

(A) State Bank of India	(B) Reserve Bank of India
(C) Central Co-operative Bank	(D) Union Bank of India

- (2) The RBI was established in : 2

(A) 1934	(B) 1935
(C) 1949	(D) 1955

- (3) Nationalisation of the Reserve Bank in : 2

(A) 1934	(B) 1935
(C) 1949	(D) 1955

- (4) _____ was the First Indian Governor of the RBI. 2

(A) Osborne Arcal Smith	(B) C.D. Deshmukh
(C) I.G. Patel	(D) Urjit Patel

- (5) The monopoly of currency creation is the function of the : 2

(A) Commercial Bank	(B) Co-operative Bank
(C) Central Bank	(D) None of these

- (6) The Central Bank has the work of the following : 2

(A) Monopoly of Current Creation	(B) Bank of Government
(C) Credit Control	(D) All of these

- (7) The Rate of Re-purchase of Bill is : 2

(A) Interest Rate	(B) Market Rate
(C) Bank Rate	(D) None of these

- (8) What is the full form of the CRR ? 2

(A) Cash Reserve Ratio	(B) Circle Revive Rate
(C) Cash Revive Rate	(D) Cash Reserve Rate

3. Write short answers :
- (A) Explain the types of Co-operative Bank. 4
 - (B) Explain the functions of Urban Co-operative Bank. 4
 - (C) Explain the functions of NABARD. 4
 - (D) Explain the functions of Primary Land Development Bank. 4

OR

- (E) Explain the functions of State Co-operative Bank. 4
 - (F) Explain the functions of District Central Co-operative Bank. 4
 - (G) Explain the objectives of NABARD. 4
 - (H) Explain the three level structure that provides short-term credit to agriculture. 4
4. Explain the objectives, functions of the International Monetary Fund. 16

OR

Explain the objectives and functions of World Bank. 16

5. Write short answers :
- (A) Write the information of Automatic Teller Machine. 4
 - (B) Write the information of Debit Card. 4
 - (C) Write the information of Credit Card. 4
 - (D) Give information about RTGS. 4

OR

- (E) Explain the concept of Mobile Banking. 4
- (F) Write the information about E-Wallet. 4
- (G) Explain the concept of N.E.F.T. 4
- (H) Write the advantages of Cashless Transaction. 4

B.A. Part-II (Semester-IV) Examination
(Optional Subject)
ECONOMICS
(Banking)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

(2) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहेत.

1. अधिकोषाची व्याख्या स्पष्ट करून अधिकोषांचे प्रकार सांगा. 16
 किंवा
 व्यापारी अधिकोषांची कार्ये स्पष्ट करा. 16
2. योग्य पर्याय निवडा :
 - (1) भारताचा केंद्रीय अधिकोष _____ आहे. 2
 (अ) स्टेट बँक ऑफ इंडिया (ब) रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
 (क) केंद्रीय सहकारी बँक (ड) युनियन बँक ऑफ इंडिया
 - (2) रिझर्व बँकेची स्थापना _____ यावर्षी झाली. 2
 (अ) 1934 (ब) 1935
 (क) 1949 (ड) 1955
 - (3) रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयकरण _____ यावर्षी झाले. 2
 (अ) 1934 (ब) 1935
 (क) 1949 (ड) 1955
 - (4) रिझर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर _____ हे होते. 2
 (अ) ऑसबोर्न आर्कल स्मिथ (ब) सी.डी. देशमुख
 (क) आय.जी. पटेल (ड) उर्जित पटेल
 - (5) चलननिर्मितीचा एकाधिकार _____ अधिकोषाचे कार्य आहे. 2
 (अ) व्यापारी अधिकोष (ब) सहकारी अधिकोष
 (क) केंद्रीय अधिकोष (ड) यापैकी नाही
 - (6) पुढीलपैकी केंद्रीय अधिकोषाचे _____ हे कार्य आहे. 2
 (अ) चलन निर्मितीचा एकाधिकार (ब) सरकारचा अधिकोष
 (क) प्रत्यय नियंत्रण (ड) वरील सर्व

- (7) हुंडी पुनर्वटाव दर म्हणजेच _____ दर होय. 2
- (अ) व्याज दर (ब) बाजार दर
- (क) अधिकोष दर (ड) यापैकी नाही
- (8) C.R.R. चे पूर्ण रूप कोणते ? 2
- (अ) Cash Reserve Ratio (ब) Cricle Revive Rate
- (क) Cash Revive Rate (ड) Cash Reserve Rate

3. लघुत्तरे लिहा :

- (अ) सहकारी बँकांचे प्रकार स्पष्ट करा. 4
- (ब) नागरी सहकारी बँकांची कार्ये स्पष्ट करा. 4
- (क) नाबार्डची कार्ये स्पष्ट करा. 4
- (ड) प्राथमिक भू-विकास बँकेची कार्ये स्पष्ट करा. 4

किंवा

- (इ) राज्य सहकारी अधिकोषाचे कार्ये सांगा. 4
- (फ) जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेची कार्ये स्पष्ट करा. 4
- (ग) नाबार्डची उद्दीष्टे स्पष्ट करा. 4
- (ह) कृषी क्षेत्रासाठी अल्पकालीन पतपुरवठा करणारी त्रि-स्तरीय रचना स्पष्ट करा. 4

4. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीची उद्दीष्टे आणि कार्ये स्पष्ट करा. 16

किंवा

- जागतिक अधिकोषाची उद्दीष्टे आणि कार्ये स्पष्ट करा. 16

5. लघुत्तरे लिहा :

- (अ) स्वयंचलित गणकयंत्राची (ATM) माहिती लिहा. 4
- (ब) डेबीट कार्ड विषयी माहिती लिहा. 4
- (क) क्रेडिट कार्डची माहिती लिहा. 4
- (ड) R.T.G.S. संकल्पना स्पष्ट करा. 4

किंवा

- (इ) मोबाईल बँकींग ही संकल्पना स्पष्ट करा. 4
- (फ) ई-वॉलेट विषयी माहिती लिहा. 4
- (ग) N.E.F.T. ही संकल्पना स्पष्ट करा. 4
- (ड) रोकडवेरहित व्यवहाराचे फायदे लिहा. 4

B.A. Part-II (Semester-IV) Examination
(Optional Subject)
ECONOMICS
(Banking)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(2) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. अधिकोष की परिभाषा एवं प्रकार बताइये। 16

अथवा

व्यापारी बैंक के कार्य स्पष्ट कीजिये। 16
2. निम्नलिखित प्रश्नों के सही पर्याय चुनकर उत्तर लिखिये :
 - (1) भारत का केंद्रीय अधिकोष _____ है। 2

(अ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	(ब) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया
(क) केंद्रीय सहकारी बैंक	(ड) युनियन बैंक ऑफ इंडिया
 - (2) रिज़र्व बैंक की स्थापना _____ में हुई। 2

(अ) 1934	(ब) 1935
(क) 1949	(ड) 1955
 - (3) रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण _____ में हुआ। 2

(अ) 1934	(ब) 1935
(क) 1949	(ड) 1955
 - (4) रिज़र्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर _____ थे। 2

(अ) ऑस्बोर्न आर्कल स्मिथ	(ब) सी.डी. देशमुख
(क) आय.जी. पटेल	(ड) उर्जित पटेल
 - (5) चलन निर्माण का एकाधिकार _____ का कार्य है। 2

(अ) वाणिज्य अधिकोष	(ब) सहकारी अधिकोष
(क) केंद्रीय अधिकोष	(ड) इनमें से नहीं
 - (6) निम्नलिखित केंद्रीय अधिकोष का _____ कार्य है। 2

(अ) चलन निर्मिती का एकाधिकार	(ब) सरकार का अधिकोष
(क) साख़ नियंत्रण	(ड) उपरोक्त सभी

(7) विपत्र पुनर्वटाव दर का मतलब _____ है।	2
(अ) ब्याज दर	(ब) बाजार दर
(क) अधिकोष दर	(ड) इनमें से नहीं
(8) C.R.R. का पूर्ण रूप है :	2
(अ) Cash Reserve Ratio	(ब) Cricle Revive Rate
(क) Cash Revive Rate	(ड) Cash Reserve Rate
3. संक्षेप में उत्तर लिखिये :	
(अ) सहकारी अधिकोष के प्रकार स्पष्ट कीजिये।	4
(ब) नगर सहकारी बैंक के कार्य स्पष्ट कीजिये।	4
(क) नाबार्ड के कार्य स्पष्ट कीजिये।	4
(ड) प्राथमिक भू-विकास बैंक के कार्य स्पष्ट कीजिये।	4
अथवा	
(इ) राज्य सहकारी अधिकोष के कार्य स्पष्ट कीजिये।	4
(फ) जिला केंद्रीय सहकारी अधिकोष के कार्य स्पष्ट कीजिये।	4
(ग) नाबार्ड के उद्देश्य स्पष्ट कीजिये।	4
(ह) कृषि क्षेत्र के लिये अल्पकालीन कर्ज देनेवाली त्रि-स्तरीय रचना स्पष्ट कीजिये।	4
4. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि के उद्देश्य एवं कार्य स्पष्ट कीजिये।	16
अथवा	
विश्व अधिकोष के उद्देश्य और कार्य स्पष्ट कीजिये।	16
5. संक्षेप में उत्तर लिखिये :	
(अ) स्वयंचालित गणक यंत्र (ATM) के बारे में जानकारी दीजिये।	4
(ब) डेबिट कार्ड के बारे में जानकारी दीजिये।	4
(क) क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दीजिये।	4
(ड) R.T.G.S. के बारे में जानकारी दीजिये।	4
अथवा	
(इ) मोबाईल बैंकिंग की संकल्पना स्पष्ट कीजिये।	4
(फ) ई-वॉलेट संबंधी जानकारी दीजिये।	4
(ग) N.E.F.T. संकल्पना स्पष्ट कीजिये।	4
(ह) कैशलेस व्यवहार के लाभ बताइये।	4